

प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थापति होंगे वेदर स्टेशन

चर्चा में क्यों?

27 जून, 2023 को उत्तराखण्ड के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉ. रंजीत सनिहा ने बताया कि उत्तराखण्ड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूसूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतष्ठान (डीजीआरई) चंडीगढ़ वेदर स्टेशन स्थापति करेगा, जिसका खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी।

प्रमुख बटु

- उत्तरकाशी में हमिसखलन की घटना से सबक लेने के बाद हिमालय के सीमांत क्षेत्रों में भी वेदर स्टेशन स्थापति किये जाने का फैसला लिया गया है।
- इससे हमिसखलन होने से पहले ही इसके संकेत मलि जाएंगे। इसके लिये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 74 वेदर स्टेशन स्थापति किये जाएंगे।
- वदिति है कि जलवायु परिवर्तन के चलते बीते कुछ सालों में उत्तराखण्ड में हमिसखलन की घटनाएँ बढ़ी हैं। यह बेहद खतरनाक पैटर्न है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी चिंता की वजह बना हुआ है।
- बीते वर्ष अक्टूबर में उत्तरकाशी जिले में उच्च हिमालयी क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिये निकले नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के 29 प्रशिक्षु पर्वतारोही डोकराणी बामक ग्लेशियर में हमिसखलन की चपेट में आ गए थे। इनमें से 27 की मौत हो गई थी।
- हालाँकि प्रदेश में हमिसखलन के कारण मौतों की यह पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी इस तरह की घटनाओं में कई बार जान-माल की हानि हुई है, लेकिन इस घटना से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) को इस दशा में ठोस कार्ययोजना बनाने के नरिदेश दिये थे।
- यूएसडीएमए के अधिकारियों ने बताया कि अभी तक मौसम संबंधी जो डाटा हमें प्राप्त हो रहा है, उसमें हमिसखलन जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी नहीं मलि पाती है। इसलिये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हमिसखलन को ध्यान में रखते हुए अलग से वेदर स्टेशन स्थापति करने का फैसला लिया गया है। ताकि सटीक आँकड़ों के साथ अलर्ट जारी किये जा सके। यह स्टेशन कहाँ-कहाँ स्थापति किये जाएंगे, सुरक्षा की दृष्टि से इसका खुलासा नहीं किये गया है।
- उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की दशा में यह बहुत बड़ा कदम है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वेदर स्टेशन स्थापति होने के बाद हमें सटीक आँकड़े प्राप्त हो पाएंगे, जिससे सही समय पर अलर्ट जारी कर जान माल के नुकसान को कम किये जा सकेगा।
- वर्ष 2000 के बाद उत्तराखण्ड में हमिसखलन की प्रमुख घटनाएँ:
 - वर्ष 2022 में उत्तरकाशी में डोकराणी बामक ग्लेशियर में हमिसखलन की चपेट में आने से 27 प्रशिक्षु पर्वतारोहियों की मौत।
 - वर्ष 2021 में त्रिशूल चोटी आरोहण के दौरान हमिसखलन की चपेट में आए नौसेना के पाँच पर्वतारोहियों सहित छह की मौत।
 - वर्ष 2021 में लंखागा दर्रे में हमिसखलन से नौ पर्यटकों की मौत।
 - वर्ष 2019 में नंदादेवी चोटी के आरोहण के दौरान हमिसखलन की चपेट में आने से चार वदिशी पर्वतारोही सहित आठ की मौत।
 - वर्ष 2016 में शविलगि चोटी पर दो वदिशी पर्वतारोहियों की मौत।
 - वर्ष 2012 में सतोपंथ ग्लेशियर पर क्रेवास में गरिकर आस्ट्रेलिया के एक पर्वतारोही की मौत।
 - वर्ष 2012 में वासुकीताल के पास हमिसखलन से बंगाल के पाँच पर्यटकों की मौत।
 - वर्ष 2008 में कालदीपास में हमिसखलन से बंगाल के तीन पर्वतारोही और पाँच पोर्टर की मौत।
 - वर्ष 2005 में सतोपंथ चोटी पर आरोहण के दौरान हमिसखलन से सेना के एक पर्वतारोही की मौत।
 - वर्ष 2005 में चौखंभा में हमिसखलन से पाँच पर्वतारोहियों की मौत।
 - वर्ष 2004 में कालदीपास में हमिसखलन से चार पर्वतारोहियों की मौत।
 - वर्ष 2004 में गंगोत्री-टू चोटी में हमिसखलन से बंगाल के चार पर्वतारोहियों की मौत।